



शैक्षिक तकनीक (Ed-Tech)

यह एडटिटरियल दिनांक 30/06/2021 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख "The future of learning in India is ed-tech" पर आधारित है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग से जुड़ी ज़रूरतों और चुनौतियों पर चर्चा की गई है।

वर्तमान में भारत का स्कूली शिक्षा परदृश्य कठिन चुनौतियों का सामना कर रहा है। क्रमिक [ASER सर्वेक्षणों](#) के अनुसार, कोविड-19 महामारी से पहले भी देश शिक्षा से संबंधित परेशानियों से जूझ रहा था।

महामारी इस संकट को और बढ़ा सकती है। महामारी के चलते विशेष रूप से 15.5 लाख स्कूल 1 वर्ष से अधिक समय से बंद हैं, जिसके चलते 248 मिलियन से अधिक छात्रों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

इस शिक्षा के संकट के साथ चौथी औद्योगिक क्रांति के उदभव ने शिक्षा की पुनर्कल्पना और इसे अभूतपूर्व तकनीकी परिवर्तन के साथ संरेखित करना अनिवार्य बना दिया है।

शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट सर्वेक्षण:

(Annual Status of Education Report- ASER)

- शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (Annual Status of Education Report-ASER) एक वार्षिक सर्वेक्षण है जिसका उद्देश्य भारत में प्रत्येक राज्य और ग्रामीण जिले के बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति और बुनियादी शिक्षा के स्तर का विश्वसनीय वार्षिक अनुमान प्रदान करना है।
- ASER सर्वेक्षण ग्रामीण शिक्षा एवं सीखने के परिणामों पर आधारित एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण है जिसमें पढ़ने एवं अंकगणितीय कौशल को शामिल किया गया है।
- इसे पिछले 15 वर्षों से एनजीओ 'प्रथम' (NGO Pratham) द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

एड-टेक की आवश्यकता और अवसर

- एड-टेक के इच्छित लाभ:** प्रौद्योगिकी में अवशिवसनीय क्षमता है और यह मानव को इच्छित लाभ देने में भी सक्षम है, जो इस प्रकार हैं:
 - शिक्षा के अधिक-से-अधिक नजीकरण को सक्षम करना।
 - सीखने की दर में सुधार करके शैक्षिक उत्पादकता में वृद्धि करना।
 - अवसंरचनात्मक सामग्री की लागत को कम करना और बड़े पैमाने पर सेवा प्रदान करना।
 - शिक्षकों/निदेशकों के समय का बेहतर उपयोग करना।
- महामारी से प्रेरित आवश्यकता:** महामारी के कारण शिक्षा में उत्पन्न हुई बाधा ने इसमें प्रौद्योगिकी को समाहित करने की आवश्यकता को एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020:** भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 निदेश के प्रत्येक स्तर पर प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने का स्पष्ट आह्वान करती है।
 - यह स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच (NETF) की स्थापना की परिकल्पना करता है, जो प्रौद्योगिकी के उपयोग और इसकी स्थापना की दिशा में प्रयासों का नेतृत्व करता है।
- एड-टेक का वादा:** भारतीय एड-टेक इकोसिस्टम में नवाचार की काफी संभावनाएँ हैं। 4,500 से अधिक स्टार्ट-अप और लगभग 700 मिलियन डॉलर के मौजूदा मूल्यांकन के साथ यह बाज़ार तेज़ी से विकास कर रहा है। अनुमान है कि अगले 10 वर्षों में \$ 30 बिलियन का आश्चर्यजनक बाज़ार देखने को मिल सकता है।
- सरकार द्वारा उठाए गए कदम:** भारत डिजिटल इंडिया और दीक्षा (स्कूली शिक्षा के लिये डिजिटल अवसंरचना) जैसे प्रमुख कार्यक्रमों द्वारा

संचालति तकनीक-आधारति बुनयादी ढाँचे, बजिली और ससुती इंटरनेट कनेक्टविटी तक पहुँच बढ़ाने के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिये तैयार है।

- तकनीक-सक्षम नगरानी और कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम संचालति कयिा जा रहा है जो नागरकि जुड़ाव, भागीदारी और प्रभावी सेवा वतिरण पर ज़ोर देता है।

एड-टेक में ज़मीनी स्तर पर नवाचार के कई उदाहरण उपलब्ध हैं:

- अरुणाचल प्रदेश के नामसाई ज़िले में हमारा वदियालय कार्यक्रम तकनीक आधारति प्रदर्शन आकलन को बढ़ावा दे रहा है।
- असम का ऑनलाइन कॅरियर मार्गदर्शन पोर्टल कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिये स्कूल से काम और उच्च शिक्षा ट्रांजिशन को मज़बूत कर रहा है।
- गुजरात में समर्थ नामक कार्यक्रम, आईआईएम-अहमदाबाद के सहयोग से लाखों शिक्षकों को ऑनलाइन पेशेवर वकिस की सुवधि प्रदान कर रहा है;
- झारखंड का डिजिीसाथ अभिभावक-शिक्षक-छात्र संबंध को मज़बूती से स्थापति करके व्यवहार परिवर्तन का नेतृत्व कर रहा है।
- हमिाचल प्रदेश की हर घर पाठशाला विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये डिजिटल शिक्षा प्रदान कर रही है।
- उत्तराखंड का सामुदायिक रेडियो बाइट-आकार के प्रसारणों के माध्यम से प्रारंभिक पठन को बढ़ावा दे रहा है।
- मध्य प्रदेश का डिजिी LEP कार्यक्रम सभी समूहों और माध्यमिक वदियालयों को कवर करने वाले 50,000 से अधिक व्हाट्सएप समूहों के साथ एक अच्छी तरह से स्थापति तंत्र के माध्यम से सीखने की दर में वृद्धि के लिये सामग्री वतिरति कर रहा है।
- केरल की अक्षरवृक्षम पहल खेल और गतविधियों के माध्यम से सीखने और कौशल वकिस का समर्थन करने के लिये डिजिटल "एजुटेनमेंट" पर ध्यान केंद्रति कर रही है।

एड-टेक के साथ जुड़े मुद्दे

- **प्रौद्योगिकी तक पहुँच में कमी:** प्रत्येक छात्र जो स्कूल जाने का खर्च नहीं उठा सकता है उसके पास ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिये फोन, कंप्यूटर या यहाँ तक कि एक गुणवत्तायुक्त इंटरनेट कनेक्शन होना दुरलभ है।
 - वर्ष 2017-18 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आँकड़ों के अनुसार, केवल 42 प्रतिशत शहरी और 15 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास इंटरनेट की सुवधि थी।
 - ऐसे में एड-टेक पहले से मौजूद डिजिटल डविाइड को बढ़ा सकता है।
- **शिक्षा के अधिकार के वपिरीत:** प्रौद्योगिकी सभी के लिये ससुती नहीं है और पूरी तरह से ऑनलाइन शिक्षा की ओर बढ़ना उन लोगों के शिक्षा के अधिकार को छीनने जैसा है जो प्रौद्योगिकी के उपयोग में सक्षम नहीं हैं।
 - इसके अलावा शिक्षा के डिजिटलीकरण की बात करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी शिक्षा के अधिकार के वपिरीत है।

आगे की राह

- **व्यापक एड-टेक नीति:** एक व्यापक एड-टेक नीति संरचना में चार प्रमुख तत्त्वों पर ध्यान दयिा जाना चाहिये-
 - विशेष रूप से वंचति समूहों तक शिक्षा की पहुँच प्रदान करना।
 - शिक्षण, सीखने और मूल्यांकन की प्रक्रियाओं को सक्षम बनाना।
 - शिक्षक प्रशिक्षण और नरितर व्यावसायिक वकिस की सुवधि।
 - योजना, प्रबंधन और नगरानी प्रक्रियाओं सहति शासन प्रणाली में सुधार करना।
- **प्रौद्योगिकी एक उपकरण है, रामबाण नहीं:** सार्वजनिक शिक्षण संस्थान सामाजिक समावेश और सापेक्ष समानता में अनुकरणीय भूमिका निभाते हैं।
 - यह वह स्थान है जहाँ सभी लगीं, वर्गों, जातियों और समुदायों के लोग मलि सकते हैं और यहाँ किसी एक समूह को दूसरों के सामने झुकने के लिये मजबूर नहीं कयिा जा सकता है।
 - इसलिये प्रौद्योगिकी स्कूलों का प्रतस्थापन या शिक्षकों का स्थान नहीं ले सकती है। इस प्रकार यह "शिक्षक बनाम प्रौद्योगिकी" नहीं बल्कि "शिक्षक और प्रौद्योगिकी" होना चाहिये।
- **एड-टेक के लिये बुनयादी ढाँचा प्रदान करना:** तत्काल अवधि में एड-टेक परदृश्य (विशेष रूप से उनके पैमाने, पहुँच और प्रभाव) को लागू करने के लिये एक सुव्यवस्थति तंत्र होना चाहिये।
 - शिक्षकों और छात्रों के लिये पहुँच, इक्विटी, बुनयादी ढाँचे, शासन और गुणवत्ता से संबंधति परिणामों व चुनौतियों पर ध्यान केंद्रति कयिा जाना चाहिये।
 - डिजिटल डविाइड को दो स्तरों - प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और इसके लाभों का लाभ उठाने के लिये पहुँच एवं कौशल को संबोधति करने पर विशेष ध्यान दयिा जाना चाहिये।
- **करॉस-प्लेटफॉर्म एकीकरण:** लघु से मध्यम अवधि में नीति नरिमाण और योजना प्रक्रिया को वभिनिन परयिोजनाओं (शिक्षा, कौशल, डिजिटल शासन तथा वतित) के साथ अभिसरण द्वारा सक्षम करने का प्रयास कयिा जाना चाहिये।
 - सार्वजनिक-नजिी भागीदारी के माध्यम से समाधानों के एकीकरण को बढ़ावा देने और सरकार के सभी स्तरों पर सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है।
- **सफलता के मॉडल को दोहराना:** लंबी अवधि में जैसे-जैसे नीति स्थानीय स्तर पर अभ्यास में बदल जाती है और प्रौद्योगिकी-आधारति समाधान सर्वव्यापी हो जाते हैं, उसी के साथ ही इस प्रकार की सफलताओं के मॉडल को अपनाकर सर्वोत्तम-इन-क्लास प्रौद्योगिकी समाधानों का भंडार,

अच्छी प्रथाओं और सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

- नीति आयोग का इंडिया नॉलेज हब और शिक्षा मंत्रालय का DIKSHA तथा ShaGun प्लेटफॉर्म इस तरह की शिक्षा को सुवर्धित बनाने के साथ-साथ बढ़ा सकते हैं।

नष्कष

एक समग्र रणनीति से Ed-Tech के सफल अनुप्रयोग तक की यात्रा नसिंसंदेह लंबी होगी। इसके लयि सावधानीपूर्वक योजना बनाने, नरितर कार्यान्वयन और परकिलति पाठ्यक्रम सुधार की आवश्यकता है। NEP 2020 के साथ आगे बढ़ने हेतु शिक्षा को प्रभावी ढंग से अधिकतम छात्रों तक पहुँचाने के लयि एक परविरतनकारी एड-टेक नीतिसमय की आवश्यकता है।

दृषुटभिनस प्रश्न: महामारी से प्रेरति शिक्षा के संकट के साथ चौथी औद्योगिक क्रांति के उदभव ने शिक्षा की पुनरकल्पना और इसे अभूतपूर्व तकनीकी परविरतन के साथ संरेखति करना अनविर्य बना दयि है। चर्चा कीजयि।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/ed-tech-2>

